

इस प्रश्न पुस्तिका को खोलने के लिए जब आपसे कहा जाए तभी इसे खोलें/ DO NOT OPEN THIS QUESTION BOOKLET UNTIL YOU ARE ASKED TO DO SO

प्रश्न पत्र/ QUESTION PAPER

सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा 2020/ LIMITED DEPARTMENTAL COMPETITIVE EXAMINATION 2020

चार्ज मैन (टी) और (एनटी) के पद के लिए/ FOR THE POST OF CHARGEMAN (T) & (NT)

विषय: कारखाना लेखा और स्टोर प्रक्रिया/ SUBJECT : FACTORY ACCOUNTING & STORE PROCEDURE

QUESTION PAPER SERIES: **C**

क्रमांक/SERIAL NUMBER :

रोल नंबर/ ROLL NUMBER									
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

अन्वेषक का हस्ताक्षर/SIGNATURE OF THE INVIGILATOR: _____

तारीख/DATE: 05/10/2020

अवधि: 3 घंटे/DURATION: 3 HOURS

समय/TIME: 02.00 PM

मैक्सिमम मार्क्स: 100/MAX. MARKS: 100

अपना उत्तर लिखने से पहले कृपया निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

Please read the following instructions carefully before writing your answer.

1. सभी प्रश्न अनिवार्य हैं/ All questions are compulsory.
2. प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है/ Each question carries 1 mark.
3. प्रत्येक प्रश्न के विरुद्ध चार विकल्प हैं- (ए), (बी), (सी), (डी), जिनमें से केवल एक सही है। ओ एम आर उत्तर पत्रक पर बुलबुला भरकर अपने उत्तर को चिह्नित करें/ There are four options-(A), (B), (C), (D) given against each question, out of which only one is correct. Mark your answer by filling bubble on the OMR Answer Sheet.
4. परीक्षार्थी को प्रदान की गई अलग ओ एम आर शीट पर अपनी सभी प्रतिक्रियाओं को चिह्नित करना होगा/ Candidate has to mark all his responses only on the separate OMR Sheet provided
5. केवल ब्लू या ब्लैक बॉल प्वाइंट पेन का उपयोग करें, पेंसिल के उपयोग की अनुमति नहीं है/ Use only Blue or Black Ball Point Pen, use of Pencil is not allowed.
6. इससे पहले कि आप अपनी ओ एम आर उत्तर पुस्तिका को चिह्नित करें, आपको अपने एडमिट कार्ड के अनुसार ओ एम आर उत्तर पत्रक में कुछ विवरणों को सावधानीपूर्वक भरना होगा। परीक्षार्थी / अन्वेषक द्वारा हस्ताक्षर बीना ओएमआर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा/ Before you proceed to mark your OMR answer sheet, you have to fill in some particulars carefully in the OMR answer sheet as per your admit card. OMR not signed by the Candidate/Invigilator shall not be evaluated.
7. प्रश्न पत्र से कोई भी पृष्ठ अलग नहीं होना चाहिए/ No page from the question paper should be detached.
8. रफ काम के लिए पेज प्रश्न पत्र का अंत में दिया गया है/ Sheet for rough work is appended in the question paper at the end.
9. गलत उत्तर के लिए कोई जुर्माना नहीं होगा। यदि परीक्षार्थी एक से अधिक उत्तर देता है, तो उसे गलत उत्तर माना जाएगा, भले ही दिए गए उत्तर में से कोई एक सही हो/ There will be no penalty for wrong answer. If candidate gives more than one answer, it will be treated as wrong answer even if one of given answer happens to be correct.
10. परीक्षा पूरी होने के बाद, आपको अपनी ओ एम आर उत्तर पुस्तिका को परिचालक को सौंपना होगा। परीक्षार्थी को अपने साथ प्रश्न पत्र ले जाने की अनुमति होगी/ After completion of examination, you have to hand over your OMR answer sheet to invigilator. Candidate shall be allowed to take the question paper along with him.

Please follow the Guideline for prevention of Covid-19 issued by Government of India/ कृपया भारत सरकार द्वारा जारी कोविड -19 की रोकथाम के लिए दिशानिर्देश का पालन करें

विवाद के मामले में, अंग्रेजी संस्करण स्वीकार्य होगा/ In case of Dispute, English version will prevail.

C

Factory Accounting and Store Procedure Questions-100

1. Which of the following is NOT used as a base for apportionment of administration overheads?
(A) Direct wages
(B) Works cost
(C) Conversion cost
(D) Sales value
2. Special Authorisation for excess material required in the shop is issued by
(A) Accounts Deptt.
(B) Stores Deptt.
(C) Materials Deptt.
(D) Planning Deptt.
3. Authorised Requisitions for material issuance by the Stores Deptt. to shops are called
(A) Warrant
(B) Work Order
(C) Demand Notes
(D) None of these
4. In a profit sharing scheme the available surplus is shared by the following EXCEPT
(A) Government (B) Shareholders
(C) Employees (D) Firm
5. Risk Allowance is usually NOT availed by Group _____ employees, in Ordnance factory.
(A) A (B) B
(C) C (D) D
6. Preventive costs of labour turnover include the following EXCEPT
(A) Cost of recruitment and training
(B) Medical services
(C) Welfare
(D) Gratuity and Pension
7. Gun cotton is then mixed with Nitroglycerine to make
(A) Nitro Acetone
(B) Cordite paste
(C) Cotton Glycerine
(D) None of these
8. If estimated value of tender is around Rs. 75 lacs in Ordnance factories, value of the tender document should be Rs. _____.
(A) 100 (B) 250
(C) 1000 (D) 500
1. निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशासन ओवरहेड्स के सविभाजन के आधार के रूप में नहीं किया जाता?
(A) प्रत्यक्ष मजदूरी
(B) कार्य लागत
(C) रूपांतरण लागत
(D) बिक्री मूल्य
2. शॉप में आवश्यक अतिरिक्त सामग्री का विशेष प्राधिकार किसके द्वारा जारी किया जाता है?
(A) लेखा विभाग
(B) स्टोर विभाग
(C) सामग्री विभाग
(D) योजना विभाग
3. स्टोर विभाग द्वारा शॉप को सामग्री जारी करने के लिए अधिकृत अनुरोध को कहा जाता है
(A) वारंट
(B) वर्क ऑर्डर
(C) डिमांड नोट
(D) इनमें से कोई नहीं
4. एक लाभ साझाकरण योजना में उपलब्ध अधिशेष निम्नलिखित किस एक के सिवाय सभी के द्वारा साझा किया जाता है?
(A) सरकार (B) शेयरधारक
(C) कर्मचारी (D) फर्म
5. आयुध निर्माणी में, जोखिम भत्ता सामान्यतः समूह _____ कर्मचारियों द्वारा नहीं लिया जाता है।
(A) A (B) B
(C) C (D) D
6. श्रम कारोबार की निवारक लागतों में निम्न किस एक के अतिरिक्त सभी शामिल हैं?
(A) भर्ती और प्रशिक्षण की लागत
(B) चिकित्सा सेवाएं
(C) कल्याणकारी
(D) ग्रेच्युटी और पेंशन
7. गन कॉटन को फिर नाइट्रोग्लिसरीन के साथ मिलाकर बनाया जाता है
(A) नाइट्रो एसिटोन
(B) कॉर्डाइट पेस्ट
(C) कॉटन ग्लिसरीन
(D) इनमें से कोई नहीं
8. यदि आयुध निर्माणियों में निविदा की अनुमानित मूल्य लगभग 75 लाख है, तो निविदा दस्तावेज का मूल्य होना चाहिए रु. _____.
(A) 100 (B) 250
(C) 1000 (D) 500

9. EOQ can be calculated in _____ units.
 (A) monetary
 (B) physical
 (C) Both (A) & (B)
 (D) Neither (A) nor (B)
10. A work order series related to Repair & Conversion is
 (A) 08 (B) 07
 (C) 05 (D) 01
11. _____ series of Work Orders normally represent Variable Overhead Expenses.
 (A) 01 (B) 02
 (C) 03 (D) 04
12. The process of distribution of overheads allotted to a particular department or cost center over the units produced is called
 (A) Allocation (B) Apportionment
 (C) Absorption (D) Departmentalization
13. The rates of levy of variable charges are calculated
 (A) monthly (B) quarterly
 (C) bi-annually (D) annually
14. Repairs to Factory Machinery will be classified as
 (A) Direct Expenses
 (B) Administrative Expenses
 (C) Factory Indirect Expenses
 (D) Direct Materials
15. Overhead Extract is prepared by the _____ Deptt.
 (A) Accounts Deptt.
 (B) Stores Deptt.
 (C) EDP Deptt.
 (D) Planning Deptt.
16. A cost driver is
 (A) largest single category of cost in a company
 (B) fixed cost that cannot be avoided
 (C) an activity that causes variations that cost
 (D) an indirect cost that is essential to the business
17. Portion of repair expenditure that is carried forward for absorption in subsequent years is shown as a(n) _____ in the Statement of Accounts.
 (A) Liability (B) Asset
 (C) Expenditure (D) Income
9. ई ओ क्यू की गणना की जाती है _____ इकाइयों में ।
 (A) मौद्रिक
 (B) भौतिक
 (C) दोनों (A) और (B)
 (D) न (A) न (B)
10. मरम्मत और रूपांतरण से संबंधित एक कार्य आदेश श्रृंखला है
 (A) 08 (B) 07
 (C) 05 (D) 01
11. _____ कार्य आदेशों की श्रृंखला आमतौर पर परिवर्ती ओवरहेड व्यय को दर्शाती है ।
 (A) 01 (B) 02
 (C) 03 (D) 04
12. उत्पादित इकाइयों के ऊपर एक विशेष विभाग या लागत केंद्र को आर्बिट्रि ओवरहेड्स के वितरण की प्रक्रिया को कहा जाता है
 (A) आबंटन (B) विभाजन
 (C) अवशोषण (D) विभागीकरण
13. परिवर्ती शुल्कों के लगान की दरों की गणना की जाती है
 (A) मासिक (B) त्रैमासिक
 (C) अर्ध-वार्षिक (D) वार्षिक
14. फ़ैक्टरी मशीनरी की मरम्मत को निम्न रूप में श्रेणीबद्ध किया जाएगा ।
 (A) प्रत्यक्ष व्यय
 (B) प्रशासनिक व्यय
 (C) फ़ैक्टरी अप्रत्यक्ष व्यय
 (D) प्रत्यक्ष सामग्रियां
15. ओवरहेड एक्स्ट्रेक्ट _____ विभाग द्वारा तैयार किया जाता है ।
 (A) लेखा विभाग
 (B) स्टोर विभाग
 (C) ई डी पी विभाग
 (D) योजना विभाग
16. एक लागत चालक है
 (A) एक कम्पनी में लागत की सबसे बड़ी एकमात्र श्रेणी
 (B) निर्धारित लागत जिसे रोका नहीं जा सकता
 (C) एक कार्यकलाप जिसके फलस्वरूप लागत में विभिन्नता होती है
 (D) एक अप्रत्यक्ष लागत जो व्यवसाय के लिए अनिवार्य है
17. मरम्मत व्यय का वह अंश जो परवर्ती वर्षों में समावेशन के लिए आगे ले जाया जाता है, को खाते के विवरण में एक _____ के रूप में दर्शाया जाता है ।
 (A) देयता (B) परिसम्पत्ति
 (C) व्यय (D) आय

C

18. In Step Ladder allocation of Expenditure, _____ sections are posted on the both sides.
(A) Service (B) Production
(C) Mixed (D) None of these
19. The _____ Department undertakes repairs and maintenance services for all Production Sections.
(A) Maintenance
(B) Engineering
(C) Repairing
(D) Overhauling
20. Which of the following techniques is NOT meant for labour cost control?
(A) Budgetary control
(B) Standard costing
(C) ABC analysis
(D) Ratio analysis
21. Allocating indirect overheads to the direct cost of production is known as
(A) activity based costing
(B) marginal costing
(C) contribution costing
(D) absorption costing
22. For conversion of Timber logs to planks a work order is allotted under _____ series.
(A) 1 (B) 2
(C) 4 (D) 8
23. The Store Holder should NOT issue materials in excess quantities authorised on
(A) Demand Notes
(B) Approval Notes
(C) Material Warrants
(D) None of these
24. Store ledger is maintained in the _____ department.
(A) Cost accounting
(B) Stores
(C) Purchase
(D) Production
25. For Indirect Materials of indigenous origin provisioning action is taken for requirement up to a maximum of _____ months.
(A) 18 (B) 12
(C) 6 (D) 24
18. व्यय के चरण सीढ़ी आबंटन में, _____ सेक्शन दोनों तरफ तैनात किए जाते हैं ।
(A) सेवा (B) उत्पादन
(C) मिश्रित (D) इनमें से कोई नहीं
19. _____ विभाग सभी उत्पादन अनुभागों के लिए मरम्मत और रखरखाव सेवाएं प्रदान करता है ।
(A) रखरखाव
(B) इंजीनियरिंग
(C) मरम्मत
(D) ओवरहालिंग
20. निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक श्रम लागत नियंत्रण के लिए नहीं है?
(A) बजटीय नियंत्रण
(B) मानक लागत
(C) ABC विश्लेषण
(D) अनुपात विश्लेषण
21. उत्पादन की प्रत्यक्ष लागत को अप्रत्यक्ष ओवरहेड आबंटित करना कहलाता है
(A) एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग
(B) मार्जिनल कॉस्टिंग
(C) कॉन्ट्रिब्यूशन कॉस्टिंग
(D) एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग
22. टिम्बर लॉग को तख्ता में रूपांतरण के लिए कार्य आदेश _____ श्रृंखला के अंतर्गत जारी किया जाता है ।
(A) 1 (B) 2
(C) 4 (D) 8
23. स्टोर होल्डर द्वारा अतिरिक्त मात्रा में सामग्रियों को जारी नहीं करना चाहिए जो निम्न में प्राधिकृत हो ।
(A) मांग नोट
(B) अनुमोदन नोट
(C) सामग्री वारन्ट
(D) इनमें से कोई नहीं
24. स्टोर लेजर का _____ विभाग में रख-रखाव किया जाता है ।
(A) कॉस्ट अकाउंटिंग
(B) स्टोर
(C) पचेज
(D) प्रॉडक्शन
25. स्वदेशी मूल की अप्रत्यक्ष सामग्रियों के लिए अधिकतम _____ महीनों तक की आवश्यकताओं के लिए प्रावधान कार्रवाई की जाती है ।
(A) 18 (B) 12
(C) 6 (D) 24

26. Where EARS has been implemented for recording attendance deduction for late will be made for every _____ minute of late.
 (A) 1 (B) 5
 (C) 15 (D) 60
27. Wage, Rent & Materials are examples of
 (A) Implicit Cost
 (B) Explicit Cost
 (C) Direct Cost
 (D) Manufacturing Cost
28. The cost of goods sold is equal to
 (A) Total Purchases - Total Sales
 (B) Opening stock + Total Purchase
 (C) Opening stock - Total Purchases + Closing Stock + Direct Costs
 (D) Opening stock + Total Purchases - Closing Stock + Direct Costs
29. Cost of labour turnover may be treated as
 (A) Direct wages
 (B) Prime cost
 (C) Overhead
 (D) None of these
30. For Indirect Materials of imported origin provisioning action is taken for requirement up to a maximum of _____ months.
 (A) 18 (B) 12
 (C) 6 (D) 24
31. Incentive Bonus is usually NOT availed by _____, in Ordnance factory.
 (A) Production worker
 (B) Essential Maintenance worker
 (C) Both (A) & (B)
 (D) None of these
32. Regular maintenance expenses are
 (A) capitalized
 (B) part of manufacturing overheads
 (C) written-off to costing profit and loss account
 (D) part of prime cost
33. Non-Moving Stores will be those stores which have NOT been drawn for a period of _____ years or more prior to the date of review.
 (A) two (B) three
 (C) four (D) five
26. जहाँ उपस्थिति दर्ज करने के लिए मंटे लागू किया गया है, प्रत्येक _____ मिनट की देरी के लिए विलंब कटौती की जाएगी।
 (A) 1 (B) 5
 (C) 15 (D) 60
27. मजदूरी, किराया और सामग्रियाँ किसके उदाहरण हैं?
 (A) अस्पष्ट लागत
 (B) स्पष्ट लागत
 (C) प्रत्यक्ष लागत
 (D) विनिर्माण लागत
28. बेचे गए माल की लागत निम्न के बराबर होती है
 (A) कुल खरीद - कुल बिक्री
 (B) प्रारंभिक भंडार + कुल खरीद
 (C) प्रारंभिक भंडार - कुल खरीद + अंतिम भंडार + प्रत्यक्ष लागत
 (D) प्रारंभिक भंडार + कुल खरीद - अंतिम भंडार + प्रत्यक्ष लागत
29. श्रम कारोबार की लागत को माना जाता है
 (A) प्रत्यक्ष मजदूरी
 (B) प्रधान लागत
 (C) ओवरहेड
 (D) इनमें से कोई नहीं
30. आयातित मूल की अप्रत्यक्ष सामग्रियों के लिए अधिकतम _____ महीनों तक की आवश्यकता के लिए प्रावधान कार्रवाई की जाती है।
 (A) 18 (B) 12
 (C) 6 (D) 24
31. आयुध निर्माणी में, प्रोत्साहन बोनस आमतौर पर _____ द्वारा नहीं लिया जाता।
 (A) उत्पादन कर्मचारी
 (B) अनिवार्य रखरखाव कर्मचारी
 (C) दोनों (A) और (B)
 (D) इनमें से कोई नहीं
32. नियमित रखरखाव खर्च होते हैं
 (A) पूंजीकृत
 (B) विनिर्माण ऊपरी खर्च का एक हिस्सा
 (C) लागत लाभ और हानि खाते में कुल हानि
 (D) प्रधान लागत का हिस्सा
33. गैर गमनशील स्टोर वे स्टोर होंगे जिन्हें समीक्षा की तारीख से पहले _____ वर्ष या उससे अधिक अवधि से नहीं लिया गया हो।
 (A) दो (B) तीन
 (C) चार (D) पाँच

C

34. Ratios which may be used for comparing labour cost over time include the following EXCEPT
 (A) Gross profit ratio
 (B) Efficiency ratio
 (C) Illness ratio
 (D) Absenteeism ratio
35. The main difference between the profit center and investment center is
 (A) Decision making
 (B) Revenue generation
 (C) Cost incurrence
 (D) Investment
36. Which of the following inventory valuation methods shows higher profits during the period of rising prices?
 (A) FIFO method
 (B) LIFO method
 (C) Weighted average
 (D) Simple average
37. The unavoidable causes of labour turnover include the following EXCEPT
 (A) Personal betterment
 (B) Dissatisfaction with the job
 (C) Illness
 (D) Retirement
38. For process materials a Work Order is allotted under _____ series.
 (A) 1 (B) 2
 (C) 3 (D) 4
39. Cleaned cotton waste is soaked in a mixture of Sulphuric and Nitric Acids becomes
 (A) Gun Cotton
 (B) Cotton Sulphate
 (C) Nitric Cotton
 (D) None of these
40. A material loss during production or storage due to evaporation or shrinkage is called
 (A) Scrap (B) Waste
 (C) Spoilage (D) Material loss
41. Overtime is due to Industrial employees if they work more than _____ hrs. a week.
 (A) 40 (B) $44 \frac{3}{4}$
 (C) $45 \frac{3}{4}$ (D) 48
34. वे अनुपात जिनका प्रयोग समय के साथ श्रम लागत की तुलना के लिए किया जाता है, उनमें निम्नलिखित किस एक के सिवाय सभी शामिल हैं?
 (A) सकल लाभ अनुपात
 (B) दक्षता अनुपात
 (C) बीमारी अनुपात
 (D) अनुपस्थिति अनुपात
35. लाभ केंद्र और निवेश केंद्र के बीच मुख्य अंतर क्या है?
 (A) निर्णय लेना
 (B) राजस्व उत्पत्ति
 (C) लागत भारग्रहण
 (D) निवेश
36. निम्नलिखित में से कौन इन्वेन्ट्री मूल्यांकन का तरीका बढ़ती कीमतों की अवधि के दौरान अधिक लाभ दिखाता है?
 (A) फिफो विधि
 (B) लिफो विधि
 (C) भारित औसत
 (D) साधारण औसत
37. श्रम कारोबार के अपरिहार्य कारणों में निम्न किस एक के सिवाय सभी शामिल हैं?
 (A) व्यक्तिगत बेहतरी
 (B) नौकरी से असंतोष
 (C) बीमारी
 (D) सेवानिवृत्ति
38. प्रक्रिया सामग्रियों के लिए एक कार्य आदेश _____ शृंखला के अंतर्गत आर्बटित किया जाता है ।
 (A) 1 (B) 2
 (C) 3 (D) 4
39. साफ कॉटन कचरे को सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में भिगोया जाता है, जो बनता है
 (A) गन कॉटन
 (B) कॉटन सल्फेट
 (C) नाइट्रिक कॉटन
 (D) इनमें से कोई नहीं
40. वाष्पीकरण या संकुचन के कारण उत्पादन या भंडारण के दौरान एक सामग्री की हानि को कहा जाता है
 (A) स्क्रेप (B) वेस्ट
 (C) स्पॉयलेज (D) सामग्री हानि
41. औद्योगिक कर्मचारियों के लिए ओवरटाइम देय होता है, यदि वे एक सप्ताह में _____ घंटे से अधिक काम करते हैं ।
 (A) 40 (B) $44 \frac{3}{4}$
 (C) $45 \frac{3}{4}$ (D) 48

42. Work cost is the total of
 (A) Direct cost
 (B) Indirect cost
 (C) Variable cost
 (D) Controllable cost
43. Depreciation on plant and machinery is
 (A) not a cash cost, so is ignored in the cost accounts
 (B) part of manufacturing overheads
 (C) part of prime cost
 (D) always calculated using the straight-line method
44. Productive causes of idle time include the following EXCEPT
 (A) Power failure
 (B) Fall in demand
 (C) Machine breakdown
 (D) Waiting for materials, tools, instructions.
45. What will be the impact of normal loss on the overall per unit cost?
 (A) Per unit cost will increase
 (B) Per unit cost will decrease
 (C) Per unit cost remain unchanged
 (D) Normal loss has no relation to unit cost
46. If fixed cost per month for a small company is Rs. 5000 and variable cost per piece be Rs. 20 and Sales Price per piece Rs. 30, then breakeven production per month will be
 (A) 300 (B) 475
 (C) 500 (D) 550
47. Non-monetary incentives may include the following EXCEPT
 (A) Health and Safety
 (B) Housing facilities
 (C) Education and Training
 (D) Dearness allowance
48. The components of factory overhead are as follows:
 (A) Direct material + Indirect material + Direct expenses
 (B) Indirect material + Indirect labour + Other Indirect cost
 (C) Direct material + Indirect expenses + Indirect labour
 (D) Direct labour + Indirect labour + Indirect expenses
42. कार्य लागत किसका कुल योग है?
 (A) प्रत्यक्ष लागत
 (B) अप्रत्यक्ष लागत
 (C) परिवर्ती लागत
 (D) नियंत्रणीय लागत
43. संयंत्र और मशीनरी पर मूल्यहास है
 (A) एक नकद लागत नहीं, इसलिए लागत खातों में अनदेखा किया जाता है
 (B) ओवरहेड के निर्माण का एक हिस्सा
 (C) प्रधान लागत का हिस्सा
 (D) हमेशा सरल-रेखा पद्धति के उपयोग द्वारा गणना की जाती है
44. निष्क्रिय समय के उत्पादनशील कारणों में निम्न किस एक के सिवाय सभी शामिल हैं?
 (A) बिजली का न होना
 (B) मांग में कमी
 (C) मशीन खराब होना
 (D) सामग्रियों, यंत्रों, अनुदेशों की प्रतीक्षा
45. समग्र प्रति इकाई लागत पर सामान्य नुकसान का क्या प्रभाव होगा?
 (A) प्रति इकाई लागत बढ़ेगी
 (B) प्रति इकाई लागत कम होगी
 (C) प्रति इकाई लागत अपरिवर्तित रहेगी
 (D) सामान्य नुकसान का इकाई लागत से कोई संबंध नहीं है
46. यदि एक छोटी कंपनी में प्रति महीने नियत लागत रू. 5000 है और प्रति पीस परिवर्ती लागत रू. 20 एवं प्रति पीस बिक्रय मूल्य रू. 30 है, तो प्रति महीने ब्रेकइवन उत्पादन होगा
 (A) 300
 (B) 475
 (C) 500
 (D) 550
47. गैर-मौद्रिक प्रोत्साहनों में निम्नलिखित किस एक के अतिरिक्त सभी शामिल हो सकते हैं?
 (A) स्वास्थ्य और सुरक्षा
 (B) आवासीय सुविधाएँ
 (C) शिक्षा और प्रशिक्षण
 (D) महंगाई भत्ता
48. फ़ैक्टरी ओवरहेड के संघटक निम्नानुसार हैं
 (A) प्रत्यक्ष सामग्री + अप्रत्यक्ष सामग्री + प्रत्यक्ष व्यय
 (B) अप्रत्यक्ष सामग्री + अप्रत्यक्ष श्रम + अन्य अप्रत्यक्ष लागत
 (C) प्रत्यक्ष सामग्री + अप्रत्यक्ष व्यय + अप्रत्यक्ष श्रम
 (D) प्रत्यक्ष श्रम + अप्रत्यक्ष श्रम + अप्रत्यक्ष व्यय

C

49. Direct Materials of small value, and the total value of which does NOT exceed the maximum of _____ percent of the value of total are treated as Indirect Material.
 (A) two (B) one
 (C) half (D) None of these
50. If Direct Material = 12,000; Direct Labor = 8000 and other Direct Cost = 2000 then what will be the Prime Cost?
 (A) 12000 (B) 14000
 (C) 20000 (D) 22000
51. _____ is the time worked over and above the employee's basic working week.
 (A) Flex time
 (B) Overtime
 (C) Shift allowance
 (D) Commission
52. Which of the following is(are) element(s) of production payroll?
 (A) Direct labor force wages
 (B) Administrative wages
 (C) Selling wages
 (D) All of the given options
53. The Store Holder, on receipt of the Stores supported by the M I Slip duly endorsed with the inspection certificate, allots a _____ to the M I Slip.
 (A) Receipt Voucher Number
 (B) Memo Number
 (C) Serial Number
 (D) None of these
54. Depreciation is _____ expenditure.
 (A) Variable
 (B) Fixed
 (C) Semi-variable
 (D) Indirect
55. A work order issued by Ordnance Factory consists of _____ digits.
 (A) 5 (B) 7
 (C) 9 (D) 10
56. When costing takes into account only the variable cost and not the full production cost we use
 (A) activity based costing
 (B) contribution costing
 (C) marginal costing
 (D) absorption costing
49. छोटे मूल्य की प्रत्यक्ष सामग्रियाँ और जिसका कुल मूल्य कुल के मूल्य के अधिकतम _____ प्रतिशत से अधिक नहीं होता है, को अप्रत्यक्ष सामग्री कहा जाता है ।
 (A) दो (B) एक
 (C) आधा (D) इनमें से कोई नहीं
50. यदि प्रत्यक्ष सामग्री = 12,000; प्रत्यक्ष श्रम = 8000 और प्रत्यक्ष लागत = 2000, तो प्रधान लागत क्या होगी?
 (A) 12000 (B) 14000
 (C) 20000 (D) 22000
51. _____ कर्मचारी के साप्ताहिक मूल काम करने के समय से अधिक एवं उससे ऊपर का समय है ।
 (A) फ्लेक्स टाइम
 (B) ओवरटाइम
 (C) शिफ्ट भत्ता
 (D) कमीशन
52. निम्नलिखित में से कौन उत्पादन भुगतान रजिस्टर (पेरोल) का / के आवश्यक तत्व है / हैं?
 (A) प्रत्यक्ष श्रम बल मजदूरी
 (B) प्रशासनिक वेतन
 (C) बिक्री मजदूरी
 (D) दिए गए सभी विकल्प
53. स्टोर होल्डर, निरीक्षण प्रमाण-पत्र के साथ पृष्ठांकित एम आई स्लिप के साथ समर्थित स्टोरों की प्राप्ति के पश्चात एम आई स्लिप को एक _____ आबंटित करता है ।
 (A) प्राप्ति वाउचर नंबर
 (B) मेमो नंबर
 (C) क्रम संख्या
 (D) इनमें से कोई नहीं
54. मूल्यहास _____ व्यय है ।
 (A) परिवर्ती
 (B) नियत
 (C) अर्ध-परिवर्ती
 (D) अप्रत्यक्ष
55. आयुध निर्माणी द्वारा जारी किए गए एक कार्य आदेश में _____ अंक होते हैं ।
 (A) 5 (B) 7
 (C) 9 (D) 10
56. जब कॉस्टिंग को खाते में लिया जाता है, केवल परिवर्ती लागत को ही एवं पूर्ण उत्पादन लागत को नहीं, हम प्रयोग करते हैं
 (A) एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग
 (B) कॉन्ट्रिब्यूशन कॉस्टिंग
 (C) मार्जिनल कॉस्टिंग
 (D) एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग

57. Depreciation of machinery would be classified as a
 (A) Direct Expense
 (B) Factory Indirect Expense
 (C) Administrative Expense
 (D) Direct Material
58. Which of the following bases would be most appropriate to apportion the cost of electric power to factory departments?
 (A) Number of outlet points
 (B) Amount metered out
 (C) Cubic capacity of premises
 (D) Kilowatt capacity of machines in department
59. Labour turnover can be measured by the following methods EXCEPT
 (A) Attrition method
 (B) Separation method
 (C) Replacement method
 (D) Flux method
60. For Direct Materials of imported origin provisioning action is taken for requirement up to a maximum of _____ months.
 (A) 18
 (B) 12
 (C) 6
 (D) 24
61. The risks in carrying inventory are
 (A) obsolescence and damage
 (B) damage and pilferage
 (C) deterioration
 (D) obsolescence, damage, pilferage and deterioration
62. _____ series of Work Orders normally represent Fixed Overhead Expenses.
 (A) 01
 (B) 02
 (C) 03
 (D) 04
63. When deciding to accept a special order at below the normal selling price a firm would consider which cost?
 (A) Full Cost
 (B) Marginal Cost
 (C) Overhead Cost
 (D) Absorption Cost
57. मशीनरी का मूल्यहास निम्न रूप में वर्गीकृत किया जाएगा ।
 (A) प्रत्यक्ष व्यय
 (B) फैक्टरी अप्रत्यक्ष व्यय
 (C) प्रशासनिक व्यय
 (D) प्रत्यक्ष सामग्री
58. निम्नलिखित में से कौन सा आधार फैक्टरी विभागों को विधुत पावर की लागत का अनुमान लगाने के लिए सबसे उपयुक्त होगा?
 (A) आउटलेट पॉइंट्स की संख्या
 (B) मीटर आउट राशि
 (C) परिसर की धन क्षमता
 (D) विभाग में मशीनों की किलोवाट क्षमता
59. श्रम कारोबार को निम्न किस एक विधि के सिवाय सभी विधियों द्वारा मापा जा सकता है?
 (A) संघर्षण विधि
 (B) पृथक्करण विधि
 (C) प्रतिस्थापन विधि
 (D) फ्लक्स विधि
60. आयातित मूल की प्रत्यक्ष सामग्रियों के लिए अधिकतम _____ महीनों तक की आवश्यकता के लिए प्रावधान कार्रवाई की जाती है ।
 (A) 18
 (B) 12
 (C) 6
 (D) 24
61. इन्वेंटरी को वहन करने में जोखिम है
 (A) अप्रचलन और क्षति
 (B) क्षति और उठाईगीरी
 (C) हास
 (D) अप्रचलन, क्षति, उठाईगीरी और हास
62. _____ कार्य आदेशों की श्रृंखला आमतौर पर निर्धारित ओवरहेड व्यय को दर्शाती है ।
 (A) 01
 (B) 02
 (C) 03
 (D) 04
63. जब सामान्य विक्रय मूल्य के नीचे एक विशेष आदेश को स्वीकार करने का निर्णय लिया जाता है, तो एक फर्म कौन सी लागत पर विचार करेगी?
 (A) पूर्ण लागत
 (B) सीमांत लागत
 (C) ओवरहेड लागत
 (D) अवशोषण लागत

C

64. Piece Work Profit Percentage is worked out on the basis of
 (A) $(\text{Input Hours}/\text{Output Hours} - 1) * 100$
 (B) $(\text{Output Hours}/\text{Input Hours} - 2) * 100$
 (C) $(\text{Input Hours}/\text{Output Hours} - 2) * 100$
 (D) $(\text{Output Hours}/\text{Input Hours} - 1) * 100$
65. Non-Practising Allowance is usually availed by Group _____ employees, in Ordnance factory.
 (A) A (B) B
 (C) C (D) D
66. Payment for idle time is paid at usually _____ rate of normal pay.
 (A) same
 (B) double
 (C) triple
 (D) half the
67. For Day Workers the basic wages are calculated for each month by the formula –

$$\frac{P}{N - (S + H)} \times (\text{Number of days present}),$$
 where S means –
 (A) Sundays
 (B) Saturdays
 (C) both Saturdays & Sundays
 (D) None of these
68. Scraps arising in production and surplus materials are returned by shops to stores on
 (A) Return Notes
 (B) Scrap Notes
 (C) Back Notes
 (D) None of these
69. Night Duty Allowance can be availed for working during _____ hrs. to _____ hrs., in Ordnance factory.
 (A) 21, 07
 (B) 22, 07
 (C) 22, 06
 (D) 21, 06
70. Maintenance stores are generally classified as _____ materials.
 (A) Direct
 (B) Indirect
 (C) Both (A) & (B)
 (D) None of these
64. पीस कार्य लाभ प्रतिशत निम्नलिखित के आधार पर निकाला जाता है
 (A) $(\text{इनपूट घंटे} / \text{आउटपूट घंटे} - 1) * 100$
 (B) $(\text{आउटपूट घंटे} / \text{इनपूट घंटे} - 2) * 100$
 (C) $(\text{इनपूट घंटे} / \text{आउटपूट घंटे} - 2) * 100$
 (D) $(\text{आउटपूट घंटे} / \text{इनपूट घंटे} - 1) * 100$
65. आयुध निर्माणी में नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता सामान्यतः समूह _____ कर्मचारियों द्वारा लिया जाता है ।
 (A) A (B) B
 (C) C (D) D
66. निष्क्रिय समय के लिए भुगतान, सामान्य भुगतान के सामान्यतः _____ दर पर किया जाता है ।
 (A) समान
 (B) दोगुणे
 (C) तीनगुणे
 (D) आधा
67. दिहाड़ी मजदूरों के लिए मूल मजदूरी की गणना निम्न सूत्र द्वारा की जाती है –

$$\frac{P}{N - (S + H)} \times (\text{उपस्थित दिनों की संख्या}),$$
 जहाँ S का अर्थ है –
 (A) रविवार
 (B) शनिवार
 (C) दोनों शनिवार और रविवार
 (D) इनमें से कोई नहीं
68. उत्पादन में होने वाले स्कैप और शॉप द्वारा लौटाई गई आधिक्य सामग्रियों को निम्न में स्टोर करना है ।
 (A) रिटर्न नोट
 (B) स्कैप नोट
 (C) बैक नोट
 (D) इनमें से कोई नहीं
69. आयुध निर्माणी में, _____ बजे से _____ बजे तक काम करने के लिए रात्रि ड्यूटी भत्ता लिया जा सकता है ।
 (A) 21, 07
 (B) 22, 07
 (C) 22, 06
 (D) 21, 06
70. रखरखाव स्टोर को आमतौर पर _____ सामग्रियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है ।
 (A) प्रत्यक्ष
 (B) अप्रत्यक्ष
 (C) दोनों (A) और (B)
 (D) इनमें से कोई नहीं

71. Materials required for common operations like sealing, varnishing, binding are treated as _____ materials.
 (A) Direct
 (B) Indirect
 (C) Both (A) & (B)
 (D) None of these
72. The items of stores received in the factory are inspected and _____ slip is issued.
 (A) Bin Card
 (B) Receipt Voucher
 (C) Priced Store Ledger
 (D) Material inward
73. Favourable conditions for the operation of piece rates include
 (A) Homogeneous products
 (B) Long, Uninterrupted Run of production
 (C) Inspection
 (D) High Proportion of indirect labour.
74. Which of the following costs is NOT a factory overhead expense?
 (A) Depreciation of equipment used in the research department
 (B) Salary of quality control inspector
 (C) Overtime premium paid to direct labour
 (D) Machine maintenance labour cost
75. All items required for office consumption in Ordnance factories up to Rs. _____ on each occasion can be purchased directly from the KendriyaBhandar/NCCF without calling for quotations.
 (A) 20,000/- (B) 50,000/-
 (C) 1,00,000/- (D) 75,000/-
76. Which of the following is a mechanical device to record the exact time of the workers?
 (A) Clock Card (B) Store Card
 (C) Token System (D) Attendance Register
77. Expenditures on account of Transfer of Technology (TOT) incurred out of Revenue Grant is treated as _____ Expenditure.
 (A) Revenue
 (B) Capital
 (C) Deferred Revenue
 (D) None of these
71. सीलिंग, वार्निशिंग, बाइंडिंग जैसे सामान्य कार्यों के लिए आवश्यक सामग्रियों को _____ सामग्री के रूप में माना जाता है ।
 (A) प्रत्यक्ष
 (B) अप्रत्यक्ष
 (C) दोनों (A) और (B)
 (D) इनमें से कोई नहीं
72. फैक्टरी में प्राप्त स्टोर की वस्तुओं का निरीक्षण किया जाता है एवं _____ पर्ची जारी की जाती है ।
 (A) बिन कार्ड
 (B) प्राप्ति वाउचर
 (C) मूल्यकृत स्टोर लेजर
 (D) सामग्री आवक
73. पीस दरों के संचालन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ में सम्मिलित है
 (A) सजातीय उत्पाद
 (B) उत्पादन का लम्बा, निर्बाध चलना
 (C) निरीक्षण
 (D) अप्रत्यक्ष श्रम का उच्च अनुपात
74. निम्नलिखित लागतों में कौन फैक्टरी ओवरहेड व्यय नहीं है?
 (A) अनुसंधान विभाग में प्रयुक्त उपकरणों का मूल्यहास
 (B) गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक का वेतन
 (C) प्रत्यक्ष श्रम के लिए भुगतान किया गया ओवरटाइम प्रीमियम
 (D) मशीन रखरखाव श्रम लागत
75. प्रत्येक अवसर पर रु. _____ तक की आयुध निर्माणी में कार्यालय उपभोग के लिए आवश्यक सभी वस्तुओं की खरीद क्वोटेशन बुलाए बिना केन्द्रीय भंडार / एन सी सी एफ से सीधे खरीदी जा सकती है ।
 (A) 20,000/-
 (B) 50,000/-
 (C) 1,00,000/-
 (D) 75,000/-
76. कर्मचारियों के सही समय को दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक यांत्रिक साधन है?
 (A) क्लॉक कार्ड
 (B) स्टोर कार्ड
 (C) टोकन सिस्टम
 (D) उपस्थिति रजिस्टर
77. राजस्व अनुदान से बाहर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से संबंधित व्यय को _____ व्यय माना जाता है ।
 (A) राजस्व
 (B) पूंजीगत
 (C) आस्थगित राजस्व
 (D) इनमें से कोई नहीं

C

78. Which of the following is false regarding the LIFO method of inventory valuation?
- (A) The material issue will be priced at the price of the material that is purchased last.
(B) The pattern of cash flow does not necessarily coincide with the actual flow pattern of materials.
(C) It permits management to influence net income by timing the purchases.
(D) LIFO determines closing inventory at recent costs.
79. Stockouts can result in
- (A) a decrease in back orders
(B) increased sales
(C) lost customers
(D) decrease in future safety stock
80. Angle of incidence defines
- (A) Systematic risk in CAPM model
(B) Post BEP relationship between cost and revenue
(C) Incidental factors in investments
(D) Marginal cost of production
81. A warrant is issued by GM of any Ordnance Factory to _____ of that Ordnance Factory.
- (A) Accounts Deptt.
(B) Administrative Deptt.
(C) Production Shop
(D) All of these
82. Slow Moving Stores would be those stores which have NOT been drawn for a period between one to _____ years prior to the date of review.
- (A) five (B) four
(C) three (D) two
83. Cordite Paste is treated with Acetone and dried to become
- (A) Cotton Acetone
(B) Gun Cotton
(C) Cordite
(D) None of these
84. Bin card is maintained by
- (A) Purchase department
(B) Production department
(C) Marketing department
(D) Storekeeper
78. इन्वेन्टरी मूल्यांकन की लिफो विधि से संबंधित निम्नलिखित में से कौन असत्य है?
- (A) जारी सामग्री की कीमत उस सामग्री के मूल्य पर की जाएगी जो अंत में खरीदी गई थी।
(B) नकद प्रवाह की पद्धति अनिवार्यतः सामग्रियों के वास्तविक प्रवाह पद्धति से अनुरूप नहीं भी हो सकती है।
(C) यह प्रबंधन को खरीद के समय द्वारा शुद्ध आय को प्रभावित करने की अनुमति प्रदान करता है।
(D) लिफो हाल की लागत पर अंतिम इन्वेन्टरी निर्धारित करता है।
79. स्टॉकआउट के परिणामस्वरूप होता है
- (A) बैक आर्डर में कमी
(B) वर्द्धित बिक्री
(C) लुप्त ग्राहक
(D) भविष्य की सुरक्षा स्टॉक में कमी
80. घटना का कोण परिभाषित करता है
- (A) सी ए पी एम मॉडल में व्यवस्थित जोखिम
(B) लागत और राजस्व के बीच बी ई पी पश्चात संबंध
(C) निवेशों में आकस्मिक कारक
(D) उत्पादन की सीमांत लागत
81. किसी भी आयुध निर्माणी के जी एम द्वारा उस आयुध निर्माणी के _____ को एक वारंट जारी किया जाता है।
- (A) लेखा विभाग
(B) प्रशासनिक विभाग
(C) उत्पादन शॉप
(D) ये सभी
82. धीमा गमनशील स्टोर वे स्टोर होंगे जिन्हें समीक्षा की तारीख से एक से _____ वर्ष के बीच अवधि के दौरान नहीं लिया गया हो।
- (A) पाँच (B) चार
(C) तीन (D) दो
83. कॉर्डाइट पेस्ट को एसिटोन से उपचारित कर सुखाया जाता है जो बनता है
- (A) कॉटन एसिटोन
(B) गन कॉटन
(C) कॉर्डाइट
(D) इनमें से कोई नहीं
84. बिन कार्ड का रखरखाव कौन करता है?
- (A) पचेज विभाग
(B) प्रॉडक्शन विभाग
(C) मार्केटिंग विभाग
(D) स्टोरकीपर

85. In Step Ladder allocation of Expenditure, _____ sections are posted on the left side.
 (A) Service (B) Production
 (C) Mixed (D) None of these
86. In Ordnance factory, _____ is an emergency reserve.
 (A) EOQ
 (B) Stockpile
 (C) Both (A) & (B)
 (D) None of these
87. The total of all direct expenses is known as
 (A) Total cost (B) Overhead
 (C) Prime cost (D) Work cost
88. The daily attendance marked by the Gate Office is checked by the
 (A) EDP
 (B) Administrative Office
 (C) Accounts Office
 (D) None of these
89. Contribution margin contributes to meet which one of the following options?
 (A) Variable cost
 (B) Fixed cost
 (C) Operating cost
 (D) Net profit
90. Opportunity cost is the best example of
 (A) Sunk Cost
 (B) Standard Cost
 (C) Relevant Cost
 (D) Irrelevant Cost
91. Who among the following are termed as piece workers in Ordnance factories ?
 (A) General worker
 (B) Maintenance worker
 (C) Both (A) & (B)
 (D) None of these
92. Storing inventory requires _____ and as inventory increases so do the costs.
 (A) space and workers
 (B) workers and equipments
 (C) space and equipments
 (D) space, workers and equipments
85. व्यय के चरण सीढ़ी आबंटन में, _____ सेक्शन बायीं तरफ तैनात किए जाते हैं ।
 (A) सेवा (B) उत्पादन
 (C) मिश्रित (D) इनमें से कोई नहीं
86. आयुध निर्माणी में, _____ एक आपातकालीन रिजर्व है ।
 (A) EOQ
 (B) स्टॉकपाइल
 (C) दोनों (A) और (B)
 (D) इनमें से कोई नहीं
87. सभी प्रत्यक्ष व्ययों का योग कहलाता है
 (A) कुल लागत (B) ऊपरी
 (C) प्रमुख लागत (D) कार्य लागत
88. गेट कार्यालय द्वारा चिह्नित दैनिक उपस्थिति की जाँच निम्न द्वारा की जाती है ।
 (A) ई डी पी
 (B) प्रशासनिक कार्यालय
 (C) लेखा कार्यालय
 (D) इनमें से कोई नहीं
89. योगदान मार्जिन निम्नलिखित किस विकल्प को पूरा करने में योगदान देता है?
 (A) परिवर्ती लागत
 (B) निर्धारित लागत
 (C) प्रचालन लागत
 (D) शुद्ध लाभ
90. अवसर लागत इसका सर्वोत्तम उदाहरण है
 (A) संक लागत
 (B) मानक लागत
 (C) संगत लागत
 (D) असंगत लागत
91. आयुध निर्माणियों में निम्नलिखित किन्हें पीस कर्मचारी कहा जाता है?
 (A) सामान्य कर्मचारी
 (B) रखरखाव कर्मचारी
 (C) दोनों (A) और (B)
 (D) इनमें से कोई नहीं
92. इन्वेंटरी को स्टोर करने में आवश्यक है _____ और इन्वेंटरी बढ़ने पर लागत भी बढ़ती है ।
 (A) जगह और कर्मी
 (B) कर्मी और उपकरण
 (C) जगह और उपकरण
 (D) जगह, कर्मी और उपकरण

C

93. For Direct Materials of indigenous origin provisioning action is taken for requirement up to a maximum of _____ months.
(A) 12 (B) 18
(C) 6 (D) 24
94. The minimum unit of time for which deductions for absence for part of a day is _____ minutes.
(A) 10 (B) 15
(C) 20 (D) 30
95. Avoidable causes of labour turnover include the following EXCEPT
(A) Redundancy
(B) Low wages
(C) Bad working conditions
(D) Marriage
96. Priced Store Ledger is maintained by the
(A) Store Office
(B) EDP Office
(C) Sales Office
(D) Accounts Office
97. Cost of production is equal to
(A) Prime costs + Other Manufacturing costs
(B) Production costs + Administration expenses
(C) Prime costs + Manufacturing costs + Opening W.I.P – Closing W.I.P.
(D) None of these
98. Depreciation is a
(A) measure of consumption of assets
(B) process of allocation and not of valuation
(C) wear and tear due to use and/or lapse of time
(D) All of these
99. Bin card is a record of _____ only.
(A) quality (B) quantity
(C) numbers (D) value
100. In Ordnance factories, rate of incentive bonus is _____% of the piece work profit earned in the month by all the piece workers.
(A) 30 (B) 40
(C) 50 (D) 60
93. स्वदेशी मूल की प्रत्यक्ष सामग्रियों के लिए अधिकतम _____ महीनों तक की आवश्यकताओं के लिए प्रावधान कार्रवाई की जाती है।
(A) 12 (B) 18
(C) 6 (D) 24
94. समय की वह न्यूनतम इकाई जिसके लिए एक दिन के किसी भाग की अनुपस्थिति के लिए कटौती की जाती है, _____ मिनट है।
(A) 10 (B) 15
(C) 20 (D) 30
95. श्रम कारोबार के परिहार्य कारणों में निम्न किस एक के सिवाय सभी शामिल होते हैं?
(A) अतिरेक
(B) कम मजदूरी
(C) खराब कार्य स्थिति
(D) विवाह
96. मूल्यकृत स्टोर लेजर का रखरखाव कौन करता है?
(A) स्टोर कार्यालय
(B) ई डी पी कार्यालय
(C) बिक्री कार्यालय
(D) लेखा कार्यालय
97. उत्पादन लागत किसके बराबर होती है?
(A) प्रधान लागत + अन्य विनिर्माण लागत
(B) उत्पादन लागत + प्रशासन व्यय
(C) प्रधान लागत + विनिर्माण लागत + प्रारंभिक डब्ल्यू आई पी - अंतिम डब्ल्यू आई पी
(D) इनमें से कोई नहीं
98. मूल्यहास है एक
(A) परिसम्पत्तियों के उपभोग की माप
(B) आबंटन की प्रक्रिया मूल्यांकन की नहीं
(C) उपयोग और / या समय बीतने के साथ घिसावट
(D) ये सभी
99. बिन कार्ड केवल _____ का एक अभिलेख है।
(A) गुणवत्ता (B) मात्रा
(C) संख्या (D) मूल्य
100. आयुध निर्माणियों में, प्रोत्साहन बोनस की दर सभी पीस कर्मचारियों द्वारा एक महीने में अर्जित पीस कार्य लाभ का _____% है।
(A) 30 (B) 40
(C) 50 (D) 60

Rough Work / रफ कार्य

C

Rough Work / रफ कार्य